

### **ROLLATAINERS LIMITED**

Registered Office: Plot No. 73-74, Phase-III, Industrial Area, Dharuhera, District Rewari, Haryana-123106
Tel.: 01274-243326, 242220

E-mail: cs.rollatainers@gmail.com Website: www.rollatainers.in

CIN: L21014HR1968PLC004844

Ref.No.: RTL/BSE/NSE/2022-23

Date: 07th September 2022

To,

The Secretary BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy, Towers Limited Dalal Street, Mumbai - 400001	The Secretary National Stock Exchange Limited, Exchange Plaza Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051
Scrip Code: 502448	Symbol: ROLLT

Sub: Submission of Newspaper cutting for information regarding 51st Annual General Meeting of the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper Publication published in newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on September 07, 2022, pertaining to the 51<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the company to be held on Friday, 30<sup>th</sup> September 2022 at 10:30 A.M. at Registered Office of the Company at Plot No. 73-74, Phase-III, Industrial Area, Dharuhera, District Rewari- 123106.

You are requested to kindly take the same on record and oblige.

Thanking You, Yours faithfully,

For Rollatainers Limited

(Aditi Jain)
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As stated above

### WHITE ORGANIC RETAIL LIMITED

CIN: L01100MH2011PLC225123 Regd. Off: Wing A, B & F, Unit No. 2001-2002, 20th Floor, Lotus Corporate Park, Near Jai Coach, Western Express Highway, Goregaon, Mumbai - 400063

#### Tel No. 022 69218000 | Website: www.whiteorganics.co.in NOTICE

Notice is hereby given that the 11" Annual General Meeting ("AGM") of the company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Video Means (VC/ OAVM) facility without the physical presence of the Members at the AGM venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13 2021, General Circular No.21/2021 dated December 14, 2021, and General Circular No.3/2022 dated May 05,2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, dated 12" May 2020 January 15, 2021 and May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM dated August 11, 2022. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company i.e., Wing A, B & F, Unit No. 2001-2002, 20th Floor, Lotus Corporate Park, Near Jai Coach, Western Express Highway, Goregaon, Mumbai - 400063.

In compliance with the MCA and SEBI circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM, along with the link of the Annual Report of the Company for the FY2021-22 has been sent only by electronic mode to all the Members whose e-mail addresses were registered with the Company or Depository Participant(s) or Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"), on Friday, September 02, 2022. The dispatch of Notice and Annual Report has been completed on Wednesday, September 6, 2022. The Notice of the AGM and Annual Report is also be available on the website of the Company www.whiteorganics.co.in, on the website of Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com, on the website of Central Depository India Limited at www.evotingindia.com.The Members holding shares in electronic mode are also requested to register/ update their email address, Permanen Account Number (PAN) and Bank Account details with the Depository Participant where their respective dematerialised accounts are maintained.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2 on General Meetings, any person holding shares either in physical or in dematerialized form as on Thursday, September 22, 2022 ("cut-off date") are provided with the facility to exercise their right to vote on all Resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting systems either by (a) remote e voting or (b) e-voting during the AGM, provided by CDSL and the business may be transacted through such e-voting. A person who is not a member as on the cut-off dat should treat this Notice for information purposes only.

The remote e-voting period begins at 09:00 a.m. (IST) on Monday, September 26, 2022 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Wednesday, September 28, 2022. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL and Members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter.

The Members attending the AGM, who have not exercised their vote by remote e-voting would be able to exercise their voting right at the AGM by logging into the e-voting portal of CDSL. The Members who have exercised their vote through remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to vote again at the AGM. Once the vote on the Resolution has been exercised and confirmed, the Member shall not be allowed to modify it subsequently.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Compan after the dispatch of AGM Notice, holds shares as on the Cut-off Date i.e., Thursday, September 22, 2022, should follow the instructions for e-voting as mentioned in the AGM Notice. The procedure for e-voting during the AGM is same as the instructions mentioned for remote e-voting. The e-voting module on the day of the AGM shall be disabled by CDSL for voting 30 minutes after the conclusion of the Meeting.

Only those Members/Shareholders, who will be present at the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote on such Resolution(s) through e-voting system during the AGM at the end of discussion on the Resolutions on which voting is to be held, upon announcement by the Chairman.

For any query relating to attending the AGM through VC/OAVM or e-voting before/ during the AGM. Members may write to / contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager. (CDSL) Centra Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mil Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

In compliance with the abovementioned MCA Circular and SEBI Circular and in support of the Company's green initiative, Members who have not registered their e-mail address and all Members holding shares in physical and dematerialized form are requested to register/update their records viz. e-mail address, PAN, Bank Account details, registered Mobile No. with supporting documents as provided in the Notice of the AGM.

Sybly Industries Ltd.

CIN: L17111UP1988PLC009594

Registered Office: Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad (U.P.)-201206

Email Id: sybly@rediffmail.com, info@sybly.com, www.sybly.com

Contact No.: 01232-261521

NOTICE is hereby given that the 34" Annual General Meeting ("AGM") of the

Members of SYBLY INDUSTRIES LIMITED will be held on Friday, September

30, 2022 at 11:30 A.M. at Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad-201206

(UP), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of

AGM dated August 30°,2022. The Notice of the AGM along with the Explanatory

Statement thereto and the Annual Report for the year

ended March 31, 2022 has been separately sent in electronic mode to all those

Members whose email addresses are registered with the Company / Depository

Participant(s)/The Registrar and Share Transfer Agent (RTA). Physical copies of the

Notice of AGM have been sent to all other Members who have not registered their

email addresses, at their registered addresses, by the permitted mode

The Annual Report and a copy of the Notice of AGM is also available on the

website of the Company (www.sybly.com) and on the website of CDSL at

The Company has entered into an arrangement with Central Depository Securities

(i) Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule

20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as

amended and regulation 44 of SEBI (LODR) Reg. 2015, the business

as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting

by electronic means. The company is pleased to provide remote e voting

through Remote E-voting and at the venue of AGM is Friday, September 23

2022 (Cut Off Date). Members holding shares either in physical or

dematerialized form, as on the Cut Off Date may either cast their votes,

electronically through electronic voting system of Central Depositories

Services Limited(CDSL) i.e. https://www.evotingindia.com from a place other

than the venue of AGM ("Remote E-voting") or at venue of the AGM through

(Tuesday) and end on September 29, 2022 at 5:00 PM (Thursday)

The Remote E-voting facility shall be disabled by CDSL after September 29,

2022 at 5:00 PM (Thursday) and no voting shall be allowed beyond the said

date and time and once the vote on the resolution is cast by the member, the

after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut Off date

i.e. September 23, 2022 (Friday) may obtain their user ID and password for

e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or

Tel. No.:- 022-23058738 and 22-23058542-43, E-mail ID

(iv) any person who has acquired shares and becomes members of the Company

member shall not be allowed to change it subsequently

CDSL by connecting to the CDSL or RTA at the following contacts:

(iii) the Remote E-voting shall commence on September 27, 2022 at 10:00 AM

(ii) the cut-off date for the purpose of determining shareholders for voting

Limited ('CDSL") for facilitating remote e-voting services.

By order of the Board of Directors White Organic Retail Limited Ishita Gala Managing Director

(DIN:07165038)

Date: September 06, 2022

https://www.evotingindia.com.

In this regard, Members may note that:

facility to all its Shareholders.

E-Voting:

Place: Mumbai

Notice of AGM:

## JAIN MARMO INDUSTRIES LIMITED

REGD OFF, 47/10, KIRANPATH MANSAROVER, JAIPUR RAJASTHAN-302020 Work Office: N:H-8, Sukher, Opp. DiamondPetrol Pump, Udaipur-313001 (Raj.) TEL:- 0294-2441666,2441777 EMAIL:- jainmarmo\_udr@yahoo.com

CIN:- L14101RJ1981PLC002419 WEBSITE:- www.jainmarmo.com Notice of Annual General Meeting of the Company

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 41 (Forty One) Annual General Members of Jain Marmo Industries Limited will be held on Thursday, 29th September, 2022 at 04.00 p.m. at the Registered Office of the Company situated at 47/10, Kiranpath, Mansarovar, Jaipur Rajasthan - 302020 to transact the business as set out in the notice. Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Company has been dispatch the notice/ Annual Report of its 41 Annual General Meeting ("AGM Notice") along with the Annual report for the year 2021-22, will be send only by email to all members of the Company whose email address are registered with the Company/RTA/ and Depository Participant (DP) and the aforesaid documents are also available on Company's website www.jainmarmo.com.

The Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically on all resolution set forth in the notice convening the 41 Annual General Meeting. The company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility. In this regard, Shareholder's Demat Account/Folio Number have been enrolled by the company for the participation in e-voting on resolution placed by the evoting system.

Commencement of e-voting | 25th September, 2022 at 09.00 AM 28thSeptember , 2022 at 05.00 PM End of e-voting

NOTICE IS ALSO HEREBY given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and register of Share Transfer books of the Company shall be closed from Friday, 23rd September, 2022 to Thrusday, 29th September, 2022 (both days inclusive). For the purpose of Annual General Meeting

For Jain Marmo Industries Limited

Place: Udaipur Date: 06th September 2022

Sidharth Jain Managing Director DIN:01275806

### **NEELKANTH ROCK-MINERALS LIMITED**

CIN: L14219RJ1988PLC062162

Khasra No. 175/74, plot No. 15/16 Jodhpur, Rajasthan-342001 E-mail ID: info@neelrock.com; Tel: +0291-2631839

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Neelkanth Rock-minerals limited ("the company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 10:00 A.M. at Registered Office of the company situated at Flat No. 606, Scheme Chopasani Jagir, Khasra No. 175/74, plot No. 15/16 Jodhpur, Rajasthan-342001, to transact the businesses, as set out in the notice of AGM.

alia, containing Board Report, Auditors' Report and Audited Financial Statements have been dispatched to all members at their registered address in permitted mode. The company has completed dispatch of notice and Annual Report to all members on September, 6, 2022 and the same are also made available on the website of the Company at www.neelrock.com, BSE Limited at www.bseindia.com.

In Compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulations 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standards on Annual General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Companies Secretariats of India, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("Remote e-voting"), provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date of September 23. 2022 shall be entitle to remote e-voting, Electronic voting shall also be made available at the AGM venue and member attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the AGM Members who have cast their vote through remote a-voting prior to the AGM can attend

The e-voting module will be disabled by CDSL thereafter.

Any Person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2022, may obtain the user ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com, However if a person is already registered with CDSL for remote e-voting the existing user ID and password can be used for casting vote.

Companies Act, 2013, read with Companies. (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (listing agreement and disclosure requirements) Regulations, 2015, that the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from 24.09.2022 to 30.09.2022 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

FOR Neelkanth Rock-Minerals Limited

Managing Director

Noratmal Kawar

Date: September 07, 2022

# "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



E-tenders are hereby invited from reputed and experienced consultants for the below mentioned consultancy work:

#### Sr. No. Description of work

Appointment of Industrial & Floor cum Techno-Economic Consultant for setting up of 100 TPD Wheat Atta Chakki Plants with facility to pack other Atta variants at Khanna, District-Ludhiana, Punjab and at Gidderbaha, District-Sri Muktsar

The e-tender forms can be downloaded upto 05.10.2022 untill 11.30 AM from e-tendering portal eproc.punjab.gov.in The Pre-Bid meeting of the prospective bidders would be held on 14.09.2022 at 11.30 AM in the Committee Room, Markfed House, Plot No.-4, Sector-35-B, Chandigarh. The other terms & conditions can be seen in the tender documents. Corrigendum/addendum/corrections, if any, will be published on the e-tendering portal eproc.punjab.gov.in

No.FED/XEN(P&E)/2022/107 GST No. 03AAAAT3454G4ZQ **Executive Engineer (P&E)** Markfed, Chandigarh.

### HIRA AUTOMOBILES LIMITED

Regd. Office: #598, Sector 18-B, Chandigarh 160018 Tel: 9217048111, 9257239113 | Email : hiraaccounts@gmail.com Website: www.hiraautomobiles.com | CIN:- L50101CH1989PLC009500

### COMPANY NOTICE

Notice is hereby given that 33rd Annual General Meeting for the Financial Year2021 -22 will be held on Friday, 30th day of September, 2022 at 05.00 pm at regd. office of the Company to transact the Business as mentioned in the notice of AGM a copy of which has been sent at registered address of the members and through email whose email Id is registered with the Company. The Company has completed dispatch of physical copy of the same to Members on 5th September, 2022.

Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 29th day of September, 2022 to 30th day of September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The Company is pleased to provide its Members facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The e-voting period commences on Tuesday 27th September, 2022 at 9:00 am and ends on Thursday 29th September, 2022 at 5:00 pm. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 pm on Thursday 29th September, 2022. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member as on 23rd September, 2022 being record date (cut-off date).

Copy of the notice is also available on the Company's website www.hiraautomobiles.com and website of CDSL www.evoting.cdsl.com.The procedure of electronic voting is available in the Notice of AGM.

Details of persons to be contacted for issues relating to e-voting: Mr. Puneet Mittal, M/s Beetal Financial and Computer Services Private Limited, New Delhi, Tel. No.011-29961281-283, e-mail: beetairta@gmail.comand CDSL at Tel No. 18002005533. E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.Details of Scrutinizer: Mr. Ravinder Kumar. Company Secretary in Practice. For Hira Automobiles Ltd.

Place: Chandigarh Date: 06-09-2022

sd/- (RAHULINDER SINGH SIDHU) Chairman & Managing Director

# ROLLATAINERS LIMITED

CIN:L21014HR1968PLC004844 Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera,

District- Rewari, Rewari 123106 | Phone: 01274-243326, 242220, E-mail: cs.rollatainers@gmail.com | Website: www.rollatainers.in

INFORMATION REGARDING 51st ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

The 51st Annual General Meeting ("AGM") of the members of Rollatainers Limited ("the Company") will be held on Friday, 30th September, 2022at 10:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area. Dharuhera, District- Rewari 123106, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with any MCA Circulars related thereto, to transact the businesses as set out in the notice of AGM.

In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday,02nd September 2022 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beeta Financial & Computer Services (P) Limited, Registrars & Share Transfer Agent.

The said documents will also be available at company's website at www.rollatainers.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e www.bseindia.com and NSE website i.e. www.nseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is also informed that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 51st AGM of the Company.

Further the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at 51st Annual General Meeting (AGM) by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (herein after referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. Members of the Company holding shares either in physical form or in demateialized

form, along with person whose names recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 23rd September 2022 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The Remote E-voting period will commence from Tuesday, September 27, 2022 (9:00 a.m. IST) and will end on Thursday, September 29, 2022 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for e-voting from the Company's Registrars & Share Transfer Agent M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beatal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind. Local Shopping Center, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062, Tel: 011-29981281-83 Email: investon@beetalfinancial.com However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/ her existing user ID and password for casting the vote through

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 02223058738 and 022-23058542/43. It is also requested to all the shareholders to update their Email IDs for supply of

Annual Reports, Notice of AGM and other communications from the Company Further, up-dated Bank details will enable electronic credit of dividends, if so, declared by the Company in future, without any delay and banking hassles for

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants (DPs) for updating the Email address, Mobile No. and Bank Mandates as per the laid down procedure with the RTA/ Depository In case of Physical Holding: Shareholders holding shares in physical form are

requested to send following details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited having office at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi-110062 at investor@beetalfinancial.com in order to facilitate for sending the Notice of Annual General Meeting, Annual Report and other important communications in electronic Details: Full Name: Address: Email address: Mobile No.: No. of Shares held: Folio

No., Certificate No.; Distinctive No; Original scan copy of PAN and Aadhar Card Original scan copy of Cancelled Cheque or Passbook signed by Bank Manager with IFSC & MICR NO (For Bank Mandate). In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are

requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. Please note that the Members who have not provided their email address will not be

able to get the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22. However, the same will be available on the website of the Company/Stock Exchange i.e. www.rollatainers.in /www.bseindia.com and www.nseindia.com in due course of time. For further information, Members can write to the Company/RTA of the Company at

Date: 06/09/2022

Place: New Delhi

cs.rollatainers@gmail.com/investor@beetalfinancial.com. For ROLLATAINERS LIMITED

> Sd/-MANISHA GOEL Whole Time Director Date: September 06, 2022

> > New Delhi

DIN: 09725308

Place: Delhi

# SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED CIN: L74899DL1968PLC004962

Regd. office: D-13/4,Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020. Website: www.salora.com | Email: sect@salora.com

### NOTICE OF 53rd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK

Notice is hereby given that 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Members

of the Company will be held on Wednesday, 28th September, 2022 at 11.00

A.M. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM) without physical presence of shareholders at a common venue in compliance with Companies Act, 2013 (the "Act") read with General Circular No.20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, Circular No.19/2021 dated December 08, 2021, Circular No.21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No.02/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated May 12, 2020, dated January 15, 2021 and dated May 13, 2022 (collectively referred as "SEBI Circulars") and other applicable Laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI, to transact the business set out in the Notice of the Meeting. In compliance of the above circulars electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 have been sent on 5th September, 2022 to all the members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories. The venue of the 53th AGM will be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase – II, New Delhi – 110020. The Notice of 53<sup>rd</sup> AGM and Annual Report for F.Y. 2021-22 can also accessed at the company's website at www.salora.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended up to date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice convening the AGM using electronic system (remote e-voting and e-voting at the AGM as well) provided by NSDL. Members, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday 21" September, 2022 shall be entitled to avail the facility of e-voting.

(9.00 A.M. IST) and ends on Tuesday 27th September, 2022 (5.00 P.M. IST). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Facility of e-voting shall also be made available at the AGM and those members, who had not casted their votes on the Resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation

The remote e-voting period will commence on Sunday 25th September, 2022.

42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain close from 22nd September, 2022 to 28th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 53rd Annual General Meeting of the Company.

The instructions for members for remote e-voting and joining annual general meeting are provided in the Notice of AGM which can be accessed at website of the company www.salora.com. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of

the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2022; may obtain log-in ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-voting, then such member can use its existing user ID and password for casting its vote. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs)

for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request addressing to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited who will also address the grievances connected with voting by electronic means.

For Salora International Limited

**Anubhav Nigam** 

Place: New Delhi. Company Secretary & Compliance Date: September 6, 2022

**CCL INTERNATIONAL LIMITED** 

CIN: L26940DL1991PLC044520 Regd. Office: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur,

New Delhi-110033 Phone No.: 011-42142258, E-mail: cmpsec@cclil.com Website: www.evocreteindia.com

NOTICE FOR 31ST ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the CCL International Limited ('Company') will be held on Friday, 30th September, 2022 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM' to transact the businesses as set out in the Notice of the 31st AGM, dated 31st August 2022, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 ("SEBI") read with the the Circular No. 14/2020 dt. April 08, 2020 General Circular No. 17/2020 dt. April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dt. January 13, 2021, General Circular No. 10/2021 dt. June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dt. December 8, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular dated May 12, 2020, Circular dated January 15, 2021 and May 13, 2022 ("SEBI Circular") issued by the Securities and

Members will be able to attend the AGM through VC/OVAM. Members participating through the VC/OVAM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

without the physical presence of the Members at a common venue.

Exchange Board of India ("SEBI/ Circular") (collectively referred to as 'relevant circulars")

In terms of MCA circular and SEBI circular, the Notice of 31st AGM setting out the ordinary and special business to be transacted at the meeting and the Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, together with Audited Standalone Financial Statement for the Financial Year 2021-22 and the Reports of Directors, Auditors thereor etc. has been sent by electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories/RTA and the email process has been completed. The requirements of sending physical copy of the Notice of 31st AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars/ Notification(s). The aforesaid documents are also available on the company website a www.evocreteindia.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

the Company are requested to update their e-mail address by sending e-mail request at Members holding shares in dematerialised mode are requested to registered/ update their

Members hold shares in physical mode and who have not update their e-mail address with

e-mail addresses with the relevant Depository Participants. The Notice of the AGM contains the instructions regarding the manner, in which shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time AGM. After updation of email ID, members may obtain the USER ID and Password by sending a request a

The documents referred to in the Notice of 31st AGM are available electronically for inspection without any fees by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of 31st AGM. Members desiring to inspect statutory registers and other relevant documents should send an email to the company at cmpsec@cclil.com.

Instructions for Remote e-voting prior to the AGM and e-voting during the AGM In compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of

Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or enactment(s) thereof for the time being in force}, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard of General Meeting ("SS-2") issued by the Company Secretaries of India, the Company is providing facility to all its members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of 31st AGM by electronic means (e-voting) by using electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) for

 The remote e-voting period starts on Tuesday, 27th September, 2022 (9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, 29th September, 2022 (5.00 p.m. IST). Remote e-voting shall be disabled by NSDL at 5:00 p.m. on 29th September, 2022 and members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. For the electronic voting instruction, shareholders may go through the instruction in the

b. Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM;

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

d. A member may participate in the 31st AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

e. The facility for voting electronically will be made available at the 31st AGM to the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote

Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23rd September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive)

The Company has appointed Ms. Akanksha Aggarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. A65272; Certificate of Practice No. 24532), as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and e-voting at AGM in a fair and transparent

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated email id-evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:-+91 22 24994545, +91 22 24994559.

In case of any queries, member may also contact Mr. Pradeep Kumar, Company Secretary through e-mail www.cmpsec@cclil.com or at telephone No. 0120-4214258.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of AGM and in particular, instructions/manner for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM.

> For and on behalf of the Board of Directors For CCL International Limited

Pradeep Kumar Company Secretary & Compliance Officer Mem. No. A50972

financialem epam in

(022-23058634) Fax: (022) 23002043.

Date: September 06, 2022 Place: Muradnagar

helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com. (v) the facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of AGM;

vi) a Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed to cast his vote again in the AGM;

vii) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut Off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting or voting at venue of the

Notice of AGM of the company can be downloaded from the link http://www.sybly.com/wp-content/uploads/2022/09/Notice 34TH-AGM SYBLY.pdf

In case of any queries, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members" available under the 'Downloads' section of www.evotingindia.com. For any further grievance related to the remote e-voting, members may call on the toll free no. 1800225533 or contact Mr. Anand Tirodkar, Mr. Ankit Bandivadekar, CDSL, Trade World, 'Phiroze Jeejeebhoy Towers, 17th Floor, Dalal Street, Mumbai 400001, at the designated email ids: helpdesk.evoting@cdslindia.com or telephone no. Tel: (022) 23058615,

In Compliance of applicable provisions of the Companies Act, 2013 and as a part of the Green Initiative, the Company encourages the Members to provide / update their e-mail address to enable the servicing of notice(s)/ documents(s)/ Annual Report(s) electronically. The request for updation of records for members holding shares in physical mode should be sent to the Company or RTA and to the Depository Participant in case of members holding shares in dematerialized mode. The AGM will be held at the said venue by strictly adhering to the Social Distancing Norms and other Safety Protocols including Face Masks, Hand Sanitization etc. as per the latest guidelines / advisories / SOPs issued by the Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India and the state Govts amid COVID 19 pandemic.

> For SYBLY INDUSTRIES LIMITED Sd/-(Sagar Agarwal)

Company Secretary & Compliance Officer M. No.: A57936

By order of the board of Director

Registered Office: Flat No. 606, Scheme Chopasani Jagir,

The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-2022, Inter-

the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Notice is hereby given pursuant to provisions of the section 91 of the

Place: Jodhpur

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Friday, September 30, 2022 at 10:30a.m. at the registered office of the Company 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001. Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has on September 07, 2022 completed the dispatch of the notice of the Annual General Meeting by providing the facility of electronic voting to its members for seeking consent of Members for the items as stated in the notice

of the Annual General Meeting dated Friday, September 30, 2022, at 10:30 a.m. . The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of this Annual General Meeting.

Members can vote through electronic means. The Voting will commence on September 27, 2022 at 9.00 a.m. and ends on September 29, 2022 at 5.00. Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Annual General Meeting by poll.

The members who have acquired the shares after the dispatch of the Notice shall be eligible for voting through electronic mode by obtaining login Id and password after logging on www.evotingindia.com. The notice is also available on the website of the

Company at www.shashankinfo.in The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time as mentioned

. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Members whose name is recorded in the Register of Members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date (i.e. September 23, 2022) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting. The Notice of Annual General Meeting will be available on www.shashankinfo.in and

on the portal of the exchange where the securities are listed. If any members require physical copy of the notice can send a requisition on the registered office address of the Company situated 702-A, Arunachal building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110001 Mr. Pravin jain, Managing Director of the Company is responsible to address the

grievances connected with facility for voting by electronic means and all the correspondence to that effect shall be addressed at registered office address: 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110001, e-mail: info@shashankinfo.in 011-43550168,43571041 - 42.

> For SHASHANK TRADERS LIMITED Pravin jain

Managing Director DIN: 01776424

Place: New Delhi Date: September 06, 2022

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड

# सीआईएन: L74899HR1994PLC072042 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट सं. 138, रोज्-का-मियो औद्योगिक क्षेत्र सोहना (जनपद मेवात), हरियाणा-122103

दूरमाष: 0124-236247, ई-मेल आईडी: bpcapitallimited@gmail.com, वेबसाइट: www.bpcapital.in

### वार्षिक साधारण सभा, बही समापन तथा रिमोट—ईवोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 29वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बृहस्पतिवार 29 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में रोज—का—मियो, औद्योगिक क्षेत्र सोहना, जनपद—मेवात 122103, हरियाणा में एजीएम की सूचना दिनांक 01 सितम्बर, 2022 में निर्धारित प्रकार्य के लेन–देन के लिए आयोजित की जायेगी। एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों के पास अनुमत्य माध्यम से 06 सितम्बर, 2022 को भेजी जा

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके तहत निर्मित प्रयोज्य नियमों के अनुसरण में एतद्वारा सचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां एजीएम के उद्देश्य से शक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 से बहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 तक बंद रहेंगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) िलिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफॉर्म पर रिमोट ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से दिनांक 01 सितम्बर, 2022 की एजीएम सूचना में उल्लिखितानुसार सभी प्रकार्य मदों पर लेन-देन हेत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। रिमोट ई–वोटिंग 26 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होगी और 28 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे सांयकाल में समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट-ई वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेशों सहित वार्षिक आम बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bpcapital.in तथा एजेंसी की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गयी है। बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 के अनुसार शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य सीडीएसएल के रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म www.evotingindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा आम बैठक के दौरान बैलट प्रपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई—वोटिंग के पश्चात भी सदस्य आम बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तू वे बैठक के दौरान मतदान के पात्र नहीं होंगे। यदि मतदान कर दिया जाता है तो इसे अवैध माना जायेगा और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान पर विचार किया जायेगा। सदस्य एजीएम की सुचना में मुद्रितानुसार ई–वोटिंग से संबंधित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या शिकायत के लिए वे www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई—वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें। शेयरधारक अपने ई-मेल आईडी के पंजीकरण / अपडेशन तथा अन्य मामलों के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, सम्पर्क नं. 011–40450193 से 97 पर या अपने संबंधित डिपॉजिटरीज से सम्पर्क कर सकते हैं।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि सेबी परिपत्र सं SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 दिनांक 8 जुन 2018 के अनुसरण में अपने शेयर डीमैटीरियलाइज्ड करा लें। पुनः सदस्यों से निवेदन है कि वे आरटीए/कम्पनी के पास अपने -ई—मेल आईडी, पैन कार्ड तथा बैंक विवरण पंजीकृत करा लें। इस संबंध में आवश्यक सूचना कम्पनी द्वारा सदस्यों को पहले ही अलग से भेज दी गयी है।

कोविड–19 महामारी के दौरान एजीएम का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों / परामर्शियों / एसओपी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों एवं अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन आदि का कठोरता से अनुपालन करते हुए उक्त स्थान पर किया जाएगा।

कृते बी. पी. कैपिटल लिमिटेड

दिनांकः 07 सितंबर, 2022

स्थानः हरियाणा

साक्षी गुप्ता कंपनी सचिव

### TENNECO फेडरल-मोगुल बियरिंग्स इंडिया लिमिटेड पूर्व में फेंडरल-मोगुल आनंद बियरिंग्स इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था

CIN: U29199HR2006PLC04326 पंजीकत कार्यालय : 10 पतोर, पारस टिवन टावर्स, टावर-बी, सेक्टर-54, गोत्फ कोर्स रोड, गुरुवाम-122002 टेली. + 91 124 4784530, ई-मेल: abhishek.nagar@tenneco.com

कम्पनी की 16वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को मुबह 10.00 बजे 10वाँ माला, पारस टिवन टावर्स, टावर बी, गोल्फ कोर्स रोड, सैंक्टर-54, गुरूग्राम-12002 में आयोजित की जाएगी जिसमें 16वीं वार्षिक एजीएम सचना तिथि 30 अगस्त, 2022 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। 16वीं वॉर्षिक साधारण सभा की सूचना तथा रिपोर्ट ई-वोटिंग के साथ उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी प्रपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास

कम्पनी (प्रबंधक एवं प्रशासन) नियमावली, 2013, तथा संशोधित के नियम-20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2014 की घारा 108 के अनुसार यह कम्पनी इलेक्टॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा वार्षिक साधारण सभा की सुचना में वर्णित व्यवसायों को उस मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। 16वीं एँजीएम के अन्यत्र स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोर्ट ई-वोटिंग") का उपयोग कर सदस्य द्वारा मतदान करने की सुविधा केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा.लि. द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उक्त नियमावली, तथा संशोधित के नियम 20 के अनुसार विवरण इस प्रकार है:

क) 16वीं एजीएम की सचना में तथा निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्टॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

ख) रिमोर्ट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को प्रातः 9.00 बजे आरम्भ होगी तथा गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को सायं 05.00 बजे बंद होगी।

 ग) इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग के माध्यम से अथवा 16वीं एजीएम में मतदान के लिए पात्रता सुनिश्चित करने की कट ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 है।

घ) ऐसे सदस्यों जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा केवल कट ऑफ तिथि को डिपोजिटरीय द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोर्ट ई-वोटिंग अथवा मत पत्र के द्वारा 16वीं एजीएम में मतदान करने के लिए

ऐसे सदस्यों जिन्होंने सचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हों तथा कम्पनी के सदस्य बने हों, तथाँ कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को शेयर धारित किये हो, वे evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्रीनं, 18003454001 संपर्क करें, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करें लेकिन यदि रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफिन टेक्नोलॉजिक प्रा..लि. में पहले से ही पंजीकृत हों तो आप अपना मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केफिन टेक्नोलॉजिक प्रा.लि. ('कर्वी') के साथ पंजीकृत हैं, तो आप रिमोर्ट ई-

वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान डालने के लिए अपने वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। च) मतदान के माध्यम से मतदान के लिए 16वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपलब्ध

कराया जाएगा और सदस्यों को जो बैठक में रिमोर्ट ई-वोटिंग के माध्मय से मतदान नहीं किया गया है, में भाग लेने के लिए, मतपत्र पत्रों के माध्यम से बैठक में अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगैं

छ) 16वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना केफिन टेक्नोलॉजिक प्रा.लि. की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध है।

ज) किसी प्रकार की पूछताछ के लिए सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions तथा www.evoting.kfintech.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए e-voting यूजर मैन्युअल देखें या ईमेलtoevoting@kfintech.com/einward.ris@kfintech.com. पर लिखित के दारा संपर्क किया जा सकता है।

करते हुए भी सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

झ) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग

कृते फेडरल-मोगुल बियरिंग्स इंडिया लिमिटेड

हस्ताक्षर/-

स्थान : गुरुग्राम तिथि : 5 सितंबर, 2022

www.readwhere.com

(मनीष चक्का) निवेशक

# गुजरात राजमार्ग पर सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत

सुरेंद्रनगर (गुजरात), 6 सितंबर (भाषा)।

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मंगलवार को एक वैन सड़क किनारें खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई

#### PARTAP INDUSTRIES LIMITED CIN: L15142PB1988PLC008614

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Regd. Vill. Beopror, Distt. Patiala, Tehsil Rajpura -147401 Tel: 91-1762-265244/45, 09354902535 E mail id : partaplisting2017@gmail.com, Website: www.partapdenim.com

 The 34<sup>th</sup> Annual General meeting of the Company will be held on Thursday, 29<sup>th</sup> September 2022. at 11:30 AM (IST) at the Registered Office Vill Beopror, Distt. Patiala, Tehsil Rajpura -147401 India to transact businesses as set out in the Notice of the 34th AGM (Notice). The Notice is available on the website of the Company at www.partapdenim.com

 Notice of the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting has been e-mailed to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories and physical copy to the remaining members by Speed Post/ Registered Letter at their addresses registered with the Company. 34<sup>th</sup> Annual Report (2020-21) has been sent by post to all members on 7<sup>th</sup> September, 2022

4. The Notice and Annual Report are available on the Company's website.

Closure of Register of Members

Place: Rajpura

Date: 7th September, 2022

Notice is hereby given that

The Register of Members and the Share Transfer Register of the Company will remain closed from Friday 23rd September 2022 to Thursday 29th September 2022, both days inclusive on account Remote E-Voting

6. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the 'Cut-off date' being Thursday, 22" September 2022, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 34th AGM by electronic voting system form a place other than AGM Venue (remote e voting) will be provided from by a National Securities Depository Limited ('NSDL'). All the members are informed that:

i. The businesses as set out in the Notice of 34th AGM may be transacted through voting by

 The remote e-voting shall commence on Monday, the 26<sup>T</sup> September, 2022 (10:00 A.M. 1ST); iii. The remote e-voting shall end on Wednesday, 28th September 2022 (5:00 P.M. 1ST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

iv. The cutoff date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM Venue is Thursday, the 22<sup>nd</sup> September 2022;

v. Details of Login ID and password for remote a-voting has been mailed along with attendance vi. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares on the cut-off date i.e. Monday, the 22<sup>nd</sup> August 2022 may obtain the login ID and password by sanding a request at

evoting@nsdl.co.in or issuen/RTA. However, if a person is already registered with NSDL for

e-voting then existing ID and password can be used for casting vote; vii. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently

viii. The facility for voting through ballot paper/electronic voting system shall be made available at the AGM Venue to those members who have not cast their vote by remote e-voting.

ix. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at AGM Venue; x. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to vote by availing remote e-voting or voting at AGM through ballot paper/electronic voting system; xi. In case of any queries or issues regarding e-voting, shareholders may contact

Mr. Siddharth Bansal (Finance Head) on telephone no. 1762-265244/45 or E mail Id: partaplisting2017@gmail.com or NSDL on the e-voting helpline no. 1800-222-990 (toll free). The Notice of AGM is available on the Company's website www.partapdenim.com and also on

the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com For Partap Industries Limited

(Company Secretary & Compliance Officer)

#### ROLLATAINERS LIMITED CIN:L21014HR1968PLC004844

Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari, Rewari 123106 | Phone: 01274-243326, 242220.

E-mail: cs.rollatainers@gmail.com | Website: www.rollatainers.in INFORMATION REGARDING 51st ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

The 51st Annual General Meeting ("AGM") of the members of Rollatainers Limited ("the Company") will be held on Friday, 30th September, 2022at 10:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari 123106, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with any MCA Circulars related thereto, to transact the businesses as set out in the notice of AGM.

In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday,02nd September 2022 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Registrars & Share Transfer Agent.

The said documents will also be available at company's website at www.rollatainers.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e. www.bseindia.com and NSE website i.e. www.nseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is also informed that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (both days

inclusive) for the purpose of 51st AGM of the Company. Further the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at 51st Annual General Meeting (AGM) by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (herein after referred as

"CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. Members of the Company holding shares either in physical form or in demateialized form, along with person whose names recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 23rd September 2022 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as

well as voting at the AGM. The Remote E-voting period will commence from Tuesday, September 27, 2022 (9:00 a.m. IST) and will end on Thursday, September 29, 2022 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for e-voting from the Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beatal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind, Local Shopping Center, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062, Tel: 011-29981281-83 Email: investon@beetalfinancial.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/ her existing user ID and password for casting the vote through

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote

If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 02223058738 and 022-23058542/43.

It is also requested to all the shareholders to update their Email IDs for supply of Annual Reports, Notice of AGM and other communications from the Company. Further, up-dated Bank details will enable electronic credit of dividends, if so, declared by the Company in future, without any delay and banking hassles for

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants (DPs) for updating the Email address, Mobile No. and Bank Mandates as per the laid down procedure with the RTA Depository

In case of Physical Holding: Shareholders holding shares in physical form are requested to send following details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited having office at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi-110062 at investor@beetalfinancial.com in order to facilitate for sending the Notice of Annual General Meeting, Annual Report and other important communications in electronic

Details: Full Name: Address: Email address: Mobile No.: No. of Shares held: Folio No., Certificate No.; Distinctive No; Original scan copy of PAN and Aadhar Card; Original scan copy of Cancelled Cheque or Passbook signed by Bank Manager with IFSC & MICR NO (For Bank Mandate).

In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

Please note that the Members who have not provided their email address will not be able to get the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22. However, the same will be available on the website of the Company/Stock Exchange i.e. www.rollatainers.in /www.bseindia.com and www.nseindia.com in due course of time.

For further information, Members can write to the Company/RTA of the Company at cs.rollatainers@gmail.com/investor@beetalfinancial.com.

Date: 06/09/2022

Place: New Delhi

For ROLLATAINERS LIMITED

MANISHA GOEL Whole Time Director DIN: 09725308

और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पंशिना थाने के प्रभारी संजय मकवाना ने बताया कि हादसा तड़के करीब साढ़े तीन बजे लिम्ब्दी तालुका में अहमदाबाद-राजकोट राजमार्ग पर कनपारा गांव के पास हुआ। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वैन बावला औद्योगिक क्षेत्र की

एक कंपनी से कुछ मजदुरों को लेकर लिम्ब्दी के उन्त्दी गांव की ओर जा रही थी। मकवाना ने कहा, वैन चालक को सड़क किनारे खड़ा ट्रक नजर नहीं आया और उसने पीछे से उसमें टक्कर मारी दी। अज्ञात चालक और दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।

(		पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव
_		विनियम ३६ए (1) के अधीन) त विवरण
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	श्री विष्णु ईटेबल्स (इंडिया) लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की ग्रंस्थापना की विधि	29.03.1996
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋगी दर्ज/पंजीकृत है	
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दासित्व पहचान संख्या	U15312DL1996PLC077680
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	812, डी मॉल, 8वी मंजिल, नेताजी सुभाष पैले पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेसी गुरुआती तिथि	10.06.2022
7.	अभिरुपि की अभिन्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	07.09.2022
8.	कोड की धारा 25(2)(एव) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध हैं	विवरण ई-मेलः hejetley@gmail.com पर ईमे भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	दियाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 की ध 29ए व अन्य प्रावधानों के अनुसार आइबीबीआई र येबसाइट http://ibbi.gov.in/webfront/leg _framework.php पर उपलब्ध है।
10.	अभिरुचि को अभिरुचित को प्राप्ति की अंतिम तिथि	22.09.2022
11.	प्रत्यासित प्रस्ताव आवेदकों की अनेतिम सूची जारी करने की तिथि	02.10.2022
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	07.10.2022
13.	प्रत्यासित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	17.10.2022
14.	प्रत्याक्षित प्रस्ताय आयेदकों के लिए प्रस्ताय योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापन, मृल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	07.10.2022
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	सूचना ज्ञापन, प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध अं मूल्यांकन सारणी आईबीसी 2016 की धारा 29(2) अनुसार गोपनीयता घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद अ व वी, कोड, 2016 की धारा 29ए की अनुपालना त क्रेडिटर्स की कमेटी डारा निर्धारित पात्रता मानदंड प् करने वाले शार्टलिस्ट प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों साथ प्रस्ताव पेशेवर हारा शेयर की जाएगी।
16.	प्रस्ताय योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.11.2022
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	सीलबंद कवर में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या दस तौर पर निम्नलिखित पते परः हेमांशृ जेटली, प्रस्ताव पेशेवर, डक्टरस रेजोल्यूश प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, एससीओ- 818, पहा मॉजल, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़- 160101
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना की प्रस्तुति हेतु अनुमानित विधि	22.11,2022
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	हेमांशू जेटली, IBBI/IPA-001/IP-P00219/2017-2018/1045
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	ड्बटरस रेजल्शन्स प्रोफेशनल्स प्राइंबेट लिमिटेड एससीओ-818, पहली मॅनिल, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़- 160101 ई-मेल आइडी: hejetley@gmail.com मोबाईल नं: +91-90417-00000
21.	प्रस्ताव पेज्ञेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	इक्टरस रेजल्शन्स प्रोफेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड एससीओ–818, पहली मॅजिल, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़- 160101 ई-मेल आइडी: hejetley@gmail.com मोबाईल नं: +91-90417-00000
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	हेमांश् जेटली, ई-मेल आइर hejetley@gmail.com
23.	फॉर्म जी के प्रकासन की तिथि	07.09.2022 हैमांगु जेट

एससीओ-818, पहली मंजिल, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ- 160101

क्षेत्रीय कार्यालय:- तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 46-47, श्रीनाथ टॉवर, कॉस्मो कॉलोनी, अमरपाली मार्ग, वैज्ञाली नगर, जयपर - 302021

अनुसुचित सम्बन्ति , बकाया राशि बारा 13 ( 2 )के अनर्गत भेजे गये मांगपत्र के अनुसार और दावा राशि किसके अनुसार करने की दिशोक नीचे दी गयी है ।

13(2) नोटिस की दिनांक

एंव बकाया राशि

13.08. 2021

श्री विष्णु ईटेबल्स (इंडिया) लिमिटेड के विषय में

यहाँक अआंहरताक्षरकर्ता पहिन्तु करन हार्राच्य काइनेच निष्टिंड के प्राधिकत अधिकारी होते हुए. विलीप आधितयाँ का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्यंडन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ( 2002 के

संख्यांक 54 ) की धारा 13( 12 ) तथा प्रतिभृति हित ( प्रकर्तन ) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत हित शक्तियों के प्रयोग में एक मौग पत्र नियम किया विकास सकता प्रप्रा में बर्णित राशित सभी लागतों. खब्तों प्रय व्ययों सहित भूगतान की वास्तविक दिनोक तक इस नोटिस की पावती के 60 दिनों में भूगतान हेतु जारी. किया : उक्त काणीयों/ सहक्रणीयों हारा राशि के भूगतान करने में असफल रहने पर काणीयों/ सहक्रणीयों

एवं जन सामान्य को एतद द्वारा सुचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभृति हित ( प्रवर्तन )धारा 13( 4 ) के साथ सहपठित उकत नियमों के नियम 8 के तहत उसकी प्रदल शक्तियों के अनुप्रयोग ।

लस्मिन नीचे वर्षित सम्बन्धित को आधिपत्य निम्निस्थित दिनाकों को ग्रहण कर लिया हैं । ऋणीयों को विशेषत्या तथा जनसामान्य को सामान्यतया यह सुचित किया जाता है यह उक्त सम्पलियों में लंबईन ना क

तथा उका सम्बन्धियां में किया गया कोई भी लेक्ट्रेन महिन्दा रूरल हा इसिय फाइनेंस लिमिटेड के निम्नलिखित सम्बन्धित रात्रि घर संबधित दिनोंक से उस पर भविषय के व्याज, लागनों एवं प्रभागों के अध्यक्षीन होगा

ध्यारकर्ता का ध्यान प्रतिभत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 8 ) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता हैं। ऋषीयों, 'सह ऋणीयों, 'जमानतदार

माहन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड

दुरभाष:-022 66523500 फैक्स:022 24972741 CIN:U65922MH2007PLC169791

र्वधक अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग जो पदा सं. 0812, ग्राम-अच्छोजाई, ग्राम

पंजिकृत कार्यालय:-साधना हाउस, द्वितिय तल,570 पी.बी. मार्ग वर्ली, मुम्बई-400018

# पूर्व सांसद ने अपात्र होने पर भी किसान योजना की सहायता मिलने का दावा किया

मुंबई, 6 सितंबर (भाषा)।

शेट्टी ने मंगलवार को दावा कियाँ कि पात्र न होते हुए भी उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत दो हजार रुपए की मासिक वित्तीय सहायता मिल रही है, जबकि कई पात्र किसान इस लाभ से वंचित हैं। पूर्व सांसद होने के कारण शेट्टी को मासिक पेंशन मिलती है और वह पीएमकेएसवाई के लाभार्थी होने के योग्य नहीं हैं। योजना के तहत उन किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। उन्होंने बताया, ''केंद्र सरकार के

रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हं। पूर्व लोकसभा सदस्य राजू हालांकि, 31 मई को मुझे 11वीं बार दो हजार रुपए मिले।'' उन्होंने दावा किया कि पीएमकेएसवाई लाभार्थियों की सची से कई पात्र किसानों के नाम गायब हैं।

शेट्टी ने मंगलवार को शिरोल में तहसील कार्यालय का दौरा किया और एक नया पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने पीएमकेएसवाई लाभार्थी के रूप में अपना नाम हटाने का अनुरोध किया था। तहसीलदार अपूर्णा मोरे धुमल ने शेट्टी के दौरे और पत्र की पुष्टि की, लेकिन इस मामले पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से मना नियमों के अनुसार, मैं दो हजार कर दिया।

महाराष्ट्रः सरपंच

को कार्यालय में

बंद किया

महाराष्ट्र में लातूर जिले के

एक गांव में ढाई साल से ग्राम

सभा आयोजित नहीं करने से

गुस्साए ग्रामीणों ने मंगवलार को

सरपंच को पंचायत कार्यालय में

गांव के मुद्दों और विभिन्न विकास

संबंधी योजना पर चर्चा के लिए

ग्राम सभाएं आयोजित करना

अनिवार्य है। शिवसेना (के उद्भव

ठाकरे गुट) के स्थानीय नेता

विशाल शिंदे ने कहा कि कटगांव

के सरपंच दत्ता गायकवाड ने बीते

ढाई साल से ग्राम सभा आयोजित

नहीं कर सरकारी नियमों का

गया कि गायकवाड़ को गुरुवार

को एक घंटे के लिए पंचायत

कार्यालय में बंद कर दिया और

जब उन्होंने ग्राम सभा आयोजित

करने का वादा किया तब जाकर

उल्लंघन किया है।

उन्हें छोडा गया।

सरकारी नियमों के अनुसार

लातूर, 6 सितंबर (भाषा)।

बंद कर दिया।

### जनसत्ता क्लासीफाइड

PUBLIC NOTICE hereby inform to the Public at large hat my client (1) SMT. RAM DEVI wife of Late Shri Bansi Lal resident of 141. Near Ram Chowk, Ward No.1 Kharkhauda, Pin-131402 Distt Sonipat, Haryana has discovned her son SHRI PREETAM and his wife SMT. SINKY GANDHI and grand son MASTER. HIMANK from her all movable and immovable assets (self acquired and inherited) and also disconnected/severed all her relation/connection with them.

ASHOK GARG (Advocate) Office At:- 7A/F14, DDA Building, First Floor, Opp. Authority, District Centre, Janak Puri, New Delhi-110058, E-mail:- a9811162274@gmail.com

If anybody deals with them regarding

any fransaction, they will do so at their

wn risk, cost and consequences.

PUBLIC NOTICE "Be it know to all that MRS, MANMEET KAUR wife of MR. RAJPAL SINGH (SAY OWNER) representing herself to be the absolute owner of DDA built-up Freehol Flat No.59, on First Floor, Cat-II, situated a Munirka Englave, New Delhi-110083 (hereinafter called the 'Said Flat'), had client free from all encumbrances The owner had represented that ( Original Allocation Letter, (2) origin Demand cum Allotment Letter, (3) Origina Possession Letter/Slip. (4) original Conveyance Deed dated 11/07/2000 (bearing registration no.9677) a issued/executed by DDA in respect of the said Flat, in favour of Mr. Pradeep Sethi S/ Sh. P. R. Sethi, are reported as missing for which necessary information has alread been lodged with the crime Branch Delt bearing L. R. No. 763758/2022 dated 06/09/2022 The owner had further represented the said flat is free from all sort encumbrances Therefore, by way of this Public Notice it is hereby notified that any person. Attorne and/or entity, firm/company, society and/or member of the Society. Bank HUE/member of HUE Financial Institution having any claim, any charge interest of lien or claim and/or objection to thereohe/she/they may lodged /notify the sam only on Email-rohitjha399@gmail.com of the undersigned with documentaproof/court judgment within 15 days form the day of publication of this public notice failing which any further /future daim/objection(s) shall be rejected & m lient/prospective buver(s) as a bona-fid purchaser conclude the title/sale dec roposed to be executed in favour of m dient or in the name of his/her/the nominees shall be deemed to be clear marketable without any defecencumbrance, flaw and impedin ROHIT KUMAR (ADVOCATE

Ch.No.5, G.F. Rohini Court, Delhi-85

भौतिक कब्जे की

दिनांक

गोवा में मादक पदार्थ रखने के आरोप में ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार पणजी, 6 सितंबर (भाषा)।

गोवा पुलिस ने 76 वर्षीय एक ब्रिटिश नागरिक को 15.48 लाख रुपए के प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेरनेम

पलिस ने सोमवार को नार्थ गोवा जिले के आरम्बोल बीच गांव के मधलवाडा में सोमवार को छापा मारा और स्टीफन स्लॉटविनर को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास से 12.2 ग्राम गांजा, एक्स्टेसी की 40 टेबलेट और अन्य मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थ रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पंचायत-गोनरहा, पंचायत समिति- डेगाना, जिला, नागौर, राजस्थान 表6.09.735/ कापये छ: लाख नो हजार सात सी ( 1008 वर्गफीट ) जिसकी सीमाए:-उत्तर में:- स्वयं की भूमि 02-09-2022 दक्षिण में: - प्रहलाद की भूमि पूर्व में:-निकाल व आप गुवाडी, पश्चिम में:-रामसिंह का बाड़ा दिनांक: 06.09.2022 स्थान: राजस्थान हस्ता/- ( प्राधिकृत अधिकारी ), महिन्द्रा रूरल हार्असंग फाइनेंस लिपिटेंड



क ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार

का नाम/ऋण खाता संख्या

LAN:XSEMAJM00710275

ऋणी:सखा राम

सह-ऋणी:साब देवी

दिनांक: 06.09.2022

Mahindra

स्थानः चंडीगढ

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमशियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट 🛮 (देखें नियम ८ (१) कब्जा सूचना) जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ( ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपिटत नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चकाने के लिये कहा गया था।

निर्गमित कर तालिका में सांश 60 दिवस के भीतर	चुकान के लिये कहा गया था।		
ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्त्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060101003292 <b>प्रबीन कुमार ( ऋणी ),</b> श्रीमती रश्मी शर्मा ( सह-ऋणी व बंधककर्ता )	13 अप्रैल 2022 र 817242/- अक्षरे आठ लाख सत्रह हजार दो सौ बयालीस मात्र दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित फ्लॉट नं. 83, खसरा नं. 3051, मानसरोवर पार्क फेस 2, गांव व तहसील - दसना, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश <b>क्षेत्रफल 90 वर्ग गज,</b> पूर्व : फ्लॉट नं. 94, पश्चिम : 18 फीट रोड, उत्तर : फ्लॉट नं. 84, दक्षिण : फ्लॉट नं. 82	03 सितम्ब 2022
ऋण खाता सं.: L9001060117110790 <b>धरम वीर सैनी (ऋणी ),</b> पुष्पा सैनी ( सह-ऋणी )	07 मई 2022 र 1186515/- अक्षरे ग्यारह लाख छियासी हजार पांच सी पंदह मात्र दिनांक 06 मई 2022 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित फ्रिहोल्ड – नगरपालिका सीमा वार्ड नं. 33 प्रशांत विहार गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश <b>क्षेत्रफल 33 वर्ग गज</b>	03 सितम्ब 2022
ऋण खाता सं.: L9001060121370069 तारीक अनवर ( ऋणी ), जाहरुल ( सह-ऋणी ), उजाला ( सह-ऋणी )	17 मई 2022 र 688729/- अक्षरे छ: लाख अद्यासी हजार सात सी उनतीस मात्र दिनांक 16 मई 2022 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्क्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित फ्रिहोल्ड - नगरपालिका सीमा मेट्रो व शहरी 505 जालपुरा, दादरी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश <b>क्षेत्रफल 50 वर्ग गज</b>	03 सितम्ब 2022
ऋण खाता सं.: L9001060122803588 विक्रम सिंह ( ऋणी ), ज्योति सिंह ( सह-ऋणी ), तेजपाल ( सह-ऋणी )	17 मई 2022 ₹ 753353/- अक्षरे सात लाख तरेपन हजार तीन सौ तरेपन मात्र दिनांक 16 मई 2022 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, विल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खेत नं. 291, गांव - सुरजपुर, परगना दादरी, तह. व जिला - गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 918 वर्ग फीट, पूर्व : गली, पश्चिम : बुजेश का फ्लॉट, उत्तर : गली, दक्षिण : मनोज का फ्लॉट	03 सितम्ब 2022
ऋण खाता सं.: L9001060114348824 <b>क्टुंबर शोकिन ( ऋणी ),</b> श्रीमती वसीमा शोकिन ( सह-ऋणी )	17 मई 2022 र 3849726/- अक्षरे अइतीस लाख उनचास हजार सात सौ छळ्ळीस मात्र दिनांक 16 मई 2022 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित कॉमशिंयल सम्पत्ति स्थित, सर्वे नं. 692, हल्दबानी, जिला नोएडा, उत्तर प्रदेश <b>क्षेत्रफल 266 वर्ग गज,</b> पूर्व : रोड 8 फीट तीन इंच चौड़ा, पश्चिम : हरी राम का फ्लॉट, उत्तर : शौकिन का फ्लॉट, दक्षिण : शब्बीर का खाली फ्लॉट	03 सितम्ब 2022
ऋण खाता सं.: L9001060715302215 अतीक कुरैशी (ऋणी ), वाबु कुरैशी (सह-ऋणी ), नदीम कुरैशी (सह-ऋणी ), वसीम (सह-ऋणी)	17 मई 2022 र 1545619/- अक्षरे पंद्रह लाख पैतालीस हजार छ: सौ उन्नीस मात्र दिनांक 16 मई 2022 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित वार्ड नं. 18, सर्वे नं. केएच नं. 773, नया नं. 1696, ब्लॉक नं. मेवातिया दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, राज्य - उत्तर प्रदेश <b>क्षेत्रफल 104 वर्ग गज,</b> पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : रोड के सामने, उत्तर : अन्य प्लॉट, दक्षिण : अन्य प्लॉट	03 सितम्ब 2022
ऋण खाता सं.: L9001060118829810 मैससें प्रीमियर प्रिन्टसें जरिये श्रीमती रोशन सिंह - कानूनी उत्तराधिकारी प्रोपराइटर स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह, श्रीमती रोशन सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह - सह-ऋणी), श्रीमती कमलेश सिंह (सह-ऋणी व बंधककर्ता), श्री पुष्पेंद्र सिंह (सह-ऋणी), श्री मूल सिंह (सह-ऋणी)	02 मार्च 2022 र 8399674/- अक्षुरे तेरासी लाख निन्यानवे हजार छह सौ चाहत्तर मात्र दिनांक 02 मार्च 2022 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्क्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित मकान नं. RZ-F-772/10A गली नं. 13, राजनगर पार्ट - 2, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110077 <b>क्षेत्रफल 100 वर्ग गज</b>	03 सितम्ब 2022
ऋण खाता सं.: L9001060116557050 आनन्द देव पासवान (ऋणी व बंधककर्ता ), श्याम देव कुमार ( सह-ऋणी व बंधककर्ता ), श्रीमती मंजू पासवान ( सह-ऋणी ), कमल देव पासवान ( जमानतदार )	23 अप्रैल 2021 र 1701364/- अक्षरे सत्रह लाख एक हजार तीन सौ चौसठ मात्र दिनांक 02 अप्रैल 2021 तक	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति बियरिंग नं. 11 व 21, खा नं. 40/20 के बाहर, ग्राम हसधल व 18/16/2, मोहन गार्डन कॉलोनी, ब्लॉक-6, ग्राम-राजापुर खुर्द,उत्तम नगर, जिला- नई दिल्ली, दिल्ली 110059 <b>क्षेत्रफल 50 वर्ग गज,</b> पूर्व : अन्य प्लॉट, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : रोड 20 फीट चौडी, दक्षिण : प्लॉट का हिस्सा	05 सितम्ब 2022

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन कों एतद द्वारा सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 1 3 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभृतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 1 3 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा

आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड''(ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा। दिनांकः 06-सितम्बर-2022 स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड